

HELP MANUAL

1. मा. सदस्य जिनके DSC (Digital Signature Certificate) टोकन बने हैं, वे ही ऑनलाइन प्रश्न प्रेषण कर सकेंगे।
2. ऑनलाइन प्रश्न प्रेषण के लिये सर्वप्रथम मा. सदस्य विधान सभा की वेबसाइट www.mpvidhansabha.nic.in पर ऑनलाइन प्रश्न प्रेषण की लिंक पर Click करेंगे।
3. ऑनलाइन प्रश्न प्रेषण साइट पर दिये गये Java, Unicode Font, Mozilla Firefox का Installation दिये गये लिंक की सहायता से करायें. Installation के बाद System ऑनलाइन प्रश्न के लिये तैयार हो जायेगा।
4. M.L.A. Log In में अपना निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक की पूर्ति करेंगे। तत्पश्चात मा. सदस्य के विधानसभा में पंजीकृत मोबाईल नं. पर O.T.P. (One Time Password) प्राप्त होगा। इस O.T.P. की सहायता से स्वयं का 08 Digit का New Password बना सकते हैं, जिसे उन्हें याद रखना है। साथ ही गोपनीयता की जिम्मेदारी स्वयं की होगी। मा. सदस्य को New Password से पुनः LOG IN करना होगा।
5. LOG IN के बाद कम्प्यूटर स्क्रीन पर Dash Board, Question Registration, MLA Chart, Password Change, Log out आदि Menu दिखाई देंगे।
6. Question Registration Option की सहायता से प्रश्न प्रेषित किया जा सकता है।
7. मा. सदस्य प्रश्न एक-एक कर अथवा एक साथ डिजीटल सिग्नेचर कर विधानसभा सचिवालय को भेज सकेंगे।
8. प्रश्नों के ग्राह्यता नियमों के अनुसार प्रश्न की 200 शब्दों की सीमा सुनिश्चित की गई है।
9. प्रश्नों के डिजीटल सिग्नेचर के पूर्व प्रश्न का Draft, विभाग का नाम, बैठक दिनांक, हिन्दी यूनिकोड फोन्ट आदि स्वयं चेक करें।
10. DSC, प्रश्न का Draft, विभाग का नाम, बैठक दिनांक, हिन्दी यूनिकोड फोन्ट आदि की पूर्ति न होने पर विधानसभा से प्रश्न Return किया जायेगा। Returned Question के Menu में कारण दर्शित होंगे जिनकी पूर्ति मा. सदस्य द्वारा की जायेगी। Returned Question को Modify कर पुनः प्रेषण किया जाना होगा।
11. विधान सभा द्वारा Check किये जाने के बाद ही प्रश्न स्वीकार किये जायेंगे। मा. सदस्य के Dash Board के तीसरे Panel (विधान सभा भेजे गये प्रश्न) के अंतिम कॉलम 'अद्यतन स्थिति' में प्रश्न के **Accepted** एवं **प्रश्न क्र.** प्राप्त होने पर ही म.प्र. विधान सभा में प्रश्नों की स्वीकृति सुनिश्चित मानें।
12. प्रश्नों के ऑनलाइन प्रेषण में तकनीकी समस्या आने पर दूरभाष क्रमांक 07552523087 अथवा 07552440237 पर कार्यालयीन समय में संपर्क कर अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं।